

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF FOODS, DRUGS & CHEMICALS

Date :- August 30, 2023

To,

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Symbol: FDC

Scrip Code: 531599

Sub.: Newspaper Advertisement of Offer-Opening pertaining to Buyback of Equity Shares by FDC Limited ("the Company").

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed Newspaper Advertisement of "Offer-Opening pertaining to Buyback of Equity Shares" in connection with Buyback of Fully Paid - up Equity Shares of the Company published today i.e. on August 30, 2023 in the following newspapers:

Name of publication	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Loksatta	Marathi	Aurangabad (Chhatrapati
		Sambhajinagar) edition

This will also be made available on the Company's website at www.fdcindia.com.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours sincerely, For FDC Limited

Varsharani Katre

Company Secretary & Compliance Officer

M. No.: FCS-8948

CORPORATE OFFICE

: 142-48, S. V. Road, Jogeshwari (W), Mumbai - 400 102. INDIA

Tel.: +91-22-6291 7900 / 950 / 2678 0652 / 2653 / 2656 • Fax : +91-22-2677 3462

E-mail: fdc@fdcindia.com • Website: www.fdcindia.com

REGISTERED OFFICE

: B-8, M.I.D.C. Industrial Area, Waluj - 431 136, Dist. Aurangabad. INDIA Tel.: 0240-255 4407 / 255 4299 / 255 4967 • Fax : 0240-255 4299 E-mail: waluj@fdcindia.com • CIN: L24239MH1940PLC003176

India lodges protest, says such steps only complicate border dispute

OLD HABIT OF THEIRS: JAISHANKAR ON NEW CHINESE MAP

"JUST BY PUTTING OUT MAPS WITH PARTS OF INDIA... DOESN'T CHANGE ANYTHING. OUR GOVERNMENT IS VERY CLEAR ABOUT OUR TERRITORY. MAKING ABSURD CLAIMS DOES NOT MAKE OTHER PEOPLE'S TERRITORIES YOURS"

S JAISHANKAR MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS



AJAI SHUKLA New Delhi, 29 August

'n a resurgence of Beijing's ongoing cartographic aggression against New Delhi, the Chinese government has released its latest 'standard map' of its border areas, continuing to show several Indian regions, including the entire Indian province of Arunachal Pradesh and the Aksai Chin region, as part of the People's Republic of China.

The map, released by Beijing on Monday, inaccurately reflects inflated territorial claims regarding China's maritime borders. It depicts China's maritime borders with the so-called 'ninedash line', covering large swathes of the South China Sea, East China Sea, and the Sea of Japan.

India's External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagchi said: We reject these claims as they have no basis. Such steps by the Chinese side only complicate the resolution of the boundary question."

External Affairs Minister S Jaishankar on Tuesday stated that it is an "old habit" of China to stake claim on territories that do not belong to them. In an interview with NDTV, the foreign minister dismissed Beijing's "absurd claims" and said "putting out a map does not mean anything".

Congress Party member Manish Tewari has rejected the Chinese claim as "absurd and preposterous".

12, the note said, adding that their share

in the global forex reserves will increase

will lead to the rise of a new Global

South as Brics+6 will offer a

credible alternative to the hegemony of

the Global North when it comes to

global affairs, trade, currency, and

game-changer as the terms of global

trade will get rewritten and the new

grouping could be the lynchpin of a new

tion, China and India will continue to

contribute 74 per cent of the overall GDP

of the Brics' GDP, while India's share is

13 per cent. This will fall to 62 and 12 per

cent, respectively, after the new mem-

bers join. Brazil's share will remain

economies) have their share in the glob-

al population at 3.7 billion and 5.1 billion,

while their GDP share is \$29.2 trillion

and \$70.4 trillion, and forex reserves at

\$5.5 trillion and \$9.4 trillion, respective-

ly. On the massive increase in the share oil trade — Saudi has the second largest

oil reserves after Russia — the oil math

will be the potential game changer for

payment system and price discovery,

Brics+6 and G20 (Group of 20 largest

However, even after the new addi-

Currently, China controls 70 per cent

He noted that Brics+6 will be a

Ghosh stated that the new grouping

by 600 bps to 45 per cent.

global order.

of the grouping, it said.

unchanged at 7 per cent.

says the report.

"The government should seriously introspect though the Group of forum — whether it dance with India's

Delhi, Xi Jinping, who is in illegal occupation of 2,000 sq. km of Indian territory along the LAC," he told *ANI*.

Such fallacious Chinese representations have also appeared on other Sino-Indian maps. Other regional countries, including Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei, have all voiced their claims over the waters of the South China Sea. In one of these maps, a 'tenth dash' has been placed east of Taiwan, depicting Beijing's claims over the island.

The publication of maps incorrectly depicting parts of India as Chinese territory has been a standard tactic employed by Beijing to lay claim to Indian territory and waters.

In the early 1950s, Beijing published its first official map of China, asserting ownership over large portions of Ladakh and the North East Frontier Agency (NEFA). This subsequently became an official claim to those Indian territories.

The latest map has been released by China's Ministry of Natural Resources. It was unveiled during the celebration of Surveying and Mapping Publicity Day and the National Mapping Awareness Publicity Week in Zhejiang Province.

The English-language news portal ChinaDaily.com.cn has quoted its chief planner, Wu Wenzhong, as stating that "surveying, mapping, and geographic information play an important role in boosting the development of the nation".

In April, China's Ministry of Civil Affairs released Chinese language names for 11 places in 'Zangnam', or South Tibet — the standard Chinese Twenty is a multinational nomenclature for Arunachal Pradesh. This marks the third instance in six years would be in accor- that China has announced Chinese names for towns, villages, and geographself-respect to be | ical features in Arunachal, reaffirming feting a person in its claim to the entire Indian state.

Brics+6 to control 30% of global GDP and 46% population: SBI report

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, 29 August

The addition of six new members to the Brics grouping will see it controlling 46 per cent of the world's population and 30 per cent of its economic output, Soumya Kanti Ghosh, chief economic advisor to the State Bank of India, said in a note.

At the latest Brics summit in Johannesburg last week, the present members — Brazil, Russia, India, China, and South Africa - decided to add Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates as new members of the grouping

The new members will become part of Brics effective January 1, 2024.

The acronym Brics was originally coined in 2001 by Goldman Sachs economists led by Jim O'Neill. Later in December 2010, South Africa was added as the fifth member.

Currently, the five-member grouping is home to 40 per cent of the world's population which controls 26 per cent of the global GDP.

But with the six new members (Brics+6), their GDP share will jump to 30 per cent and their share of the population will go up to 46 per cent, the note

However, the biggest impact will be on the share of global oil production which will increase to 40 per cent from the current 18 per cent, while their oil intake share will jump from 27 per cent to 36 per cent, according to the note.

Similarly, their share in global mer-

chandise trade will rise from 20 per cent PRESS TRUST OF INDIA

to 25 per cent, and that of global services trade will increase to 15 per cent from New Delhi, 29 August

> The Bharatiya Janata Party government in these self-governing institutes.

> Panchayats (Extension to Scheduled Areas) (PESA) Act — most of them with substantial tribal populations — the reservation for OBCs

unchanged.

ine existing

Earlier, OBC reservation in local bodies was 10 per cent in Gujarat. The announcement, based on the Justice Jhaveri Commission report, comes before the Lok Sabha elections and will pave the way of holding of local body polls, which were postponed due to the pending quota issue after the Supreme Court mandated that reservation for OBCs should be on the basis of their population. After the announcement, seats in the local bodies will be kept reserved for OBC candidates in 27 per cent proportion when elections are held, Guiarat minister and government spokesperson Rushikesh Patel.

Gujarat raises OBC quota in local bodies to 27% from 10%

Gujarat on Tuesday announced a 27 per cent reservation for Other Backward Classes (OBCs) in local bodies like panchayats, municipalities and civic corporations on the basis of a report, paving the way for polls in

However, in areas notified under the in local bodies will con-

tinue to be 10 per cent The existing quota for quota remains Scheduled

Castes/Scheduled Tribes and there is remains unchanged and no breach there has been no breach of the 50% of the 50 per cent reservation ceiling, the Gujarat government said.

'Democracy important': SC asks for J&K statehood time frame

Govt says J&K status not permanent, but Ladakh will remain a UT for now

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 29 August

The Centre told the Supreme Court (SC) on Tuesday that the Union Territory status (UT) of Jammu and Kashmir (J&K) is not a "permanent thing" and that it will make a statement on the vexatious political issue in the court on August 31.

The central government's response was conveyed to the court by Solicitor General Tushar Mehta, after a five-judge Constitution Bench headed by Chief Justice DY Chandrachud, hearing the pleas challenging the abrogation of Article 370, asked it to set a specific time frame for restoration of electoral democracy in the erstwhile state.

"The Union Territory status of J&K is not a permanent thing. So far as Ladakh is concerned, its UT status is going to remain for some time," Mehta said. The top government law officer said he would make an elaborate statement on the

"DEMOCRACY IS IMPORTANT. **ALTHOUGH WE AGREE THAT IN VIEW OF THE NATIONAL SECURITY** SCENARIO, REORGANISATION OF THE STATE CAN BE DONE" **SUPREME COURT**



future of the Union Territory status of J&K and Ladakh before the bench, which also comprises Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, BR Gavai and Surya Kant, on August 31. The Bench, which was hearing Mehta's submissions defending the Centre's decision to do away with the special status of the former state and its reorganisation, said: "Democracy is important, although we agree that in view of the national security scenario, reorganisation of the state can be done." The court said lack of electoral democracy

cannot be allowed to go on indefinitely.

Environmental harm irreversible: SC defers govt's GM Mustard plea

The Supreme Court (SC) on Tuesday deferred the consideration of the Centre's plea for the withdrawal of an oral undertaking made to the court in November, last year, pledging to maintain the status quo on the release of genetically modified (GM) mustard. The governmnet's application for the will now be considered on September 26. PTI OFFER OPENING ADVERTISMENT FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF



Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate, Waluj - 431 130, Dist. Aurangabad, Maharashtra Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299

Correspondence Address: C-3 SKYVISTAS, Near Versova Police Station, 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053 Tel: +91 22 2673 9215 Website: www.fdcindia.com, Email: warsharani.katre@fdcindia.com Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 31,00,000 (THIRTY ONE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RE. 1/- (RUPEE ONE) EACH ("EQUITY SHARES"). REPRESENTING 1.87% OF THE ISSUED. SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2023 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 25, 2023. ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 500 (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 155,00,00,000 (RUPEES ONE HUNDRED AND FIFTY FIVE CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE")

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

a) the public announcement in connection with the Buyback published on August 11, 2023 in the following newspapers: i) Business Standard (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) Loksatta (Marathi - Aurangabad Edition) ("Public Announcement");

b) the letter of offer dated August 28, 2023 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisment shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer. The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Friday, August 25, 2023 has been completed by August 29, 2023 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through

speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders. The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the website of the Company (www.fdcindia.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaecapital.com), Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire,

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below

The Dayback Entitlement ratio for the shareholders is as below.		
Category of Shareholders	Ratio of Buyback *	
Reserved category for Small Shareholders	12 Equity Shares for every 131 Equity Shares held on the Record Date	
General category for all other Eligible Shareholders	1 Equity Share for every 61 Equity Shares held on the Record Date	

The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 9.1603% and General category for all other Eligible Shareholders is 1.6393%

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 28 of the Letter of Offer. Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

(a) In case the Shares are held in Dematerialised Form Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 33 of the Letter of Offer.

(b) In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 34 of the Letter

(c) In case of non receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 37 of the Letter of Offer.

An Eligible Shareholder holding share in physical form may also participate in the Buyback by downloading the Tender Form from the website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in or by providing their application in writing on plain paper to the Registrar, signed by Eligible Shareholder or all Eligible Shareholders (in case Equity Shares are in joint name) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, share certificate number, number of Equity Shares tendered for the Buyback and the distinctive numbers thereof, bank account details together with the original share certificate(s), copy of Eligible Shareholders PAN card(s) and executed Form SH-4 in favour of the Company. The transfer Form (SH-4) can be downloaded from the website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in. Eligible Shareholders must ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents (as mentioned in paragraph 20.25 of Letter of Offer), reach the Registrar on or before the Buyback Closing Date (by 5:00 p.m.). If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Registrar / Company or are not in the same order (although attested), the Company / Registrar shall have a right to reject such

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

Particulars

SCHEDULE OF ACTIVITIES

KI II II JA		
Date of Board Meeting approving the Buyback	August 09, 2023	Wednesday
Date of publication of the Public Announcement for the Buyback	August 11, 2023	Friday
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	August 25, 2023	Friday
Last date for dispatch of Letter of Offer	August 29, 2023	Tuesday
Date of Opening of the Buyback	August 31, 2023	Thursday
Date of Closing of the Buyback	September 06, 2023	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback *	September 08, 2023	Friday
Last date of verification of Shares tendered by the Registrar to the Buyback	September 08, 2023	Friday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchanges	September 13, 2023	Wednesday
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar / payment of consideration to shareholders / return of unaccepted demat shares by Stock Exchange to Eligible Shareholders	September 13, 2023	Wednesday
Last date of extinguishment of Equity Shares	September 25, 2023	Monday
* Clinikla Obasakaldan ana maninada a makani da mata da mata kana da kiddina Adama adalah a malidak	d 46 II	

Eligible Shareholders are required to submit their form(s) with their broker for bidding. After entering a valid bid, the seller member should send either by registered post / courier to the Registrar to the Buyback the Tender Forms along with the requisite documents, superscribing the envelope as "FDC Limited - Buyback 2023". or hand deliver the same to the Registrar to the Buyback at the address mentioned on the cover page or in Clause 18

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates

Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

MANAGER TO THE BUYBACK

Sundae Capital Advisors Private Limited 404, 4th floor, Vaibhav Chambers Opp. Income Tax Office, Bandra Kurla Complex

Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 96 6785 9191 Email: fdc.buyback@sundaecapital.com

Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com SEBI Regn. No.: INM000012494

Validity Period: Permanent Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma

All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer. For and on behalf of the Board of Directors of

FDC Limited Mohan Anand Chandavarkar **Managing Director** (DIN: 00043344)

Ashok Anand Chandavarkar **Executive Director** (DIN: 00042719)

Varsharani Katre

LINKIntime

L.B.S. Marg, Vikhroli (West)

Tel. No.: +91 810 811 4949

Website: www.linkintime.co.in

Validity Period: Permanent

SEBI Regn. No.: INR000004058

Fax: +91 22 4918 6060

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park

Mumbai - 400 083, Maharashtra, India

Email id.: fdc.buyback2023@linkintime.co.in

Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande

Company Secretary & Compliance Officer

REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE

Place: Mumbai Date: August 29, 2023

यिर पर सकारात्मक रेटिंग

नई दिल्ली २० अगस्त

•लायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं सालाना आम बैठक ने ब्रोकरेज फर्मों की तरफ लायंस इडस्ट्राज का 46वा कालाना आम बैठक ने ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया का सामन नहीं किया और उनमें करकार लेकर अपनी रेटिंग और लक्षित कीमतें बरकरार रखी है। इसकी मुख्य वजह अल्पाविध को लेकर किसी ठोस योजना का अभाव है।

आरआईएल के सभी कारोबारों के मजबत परिदृश्य और अगले दशक में अहम कीमत सृजन के कंपनी के वादे को देखते हुए विश्लेषकों ने होल्ड के बजाय खरीद की इसकी रेटिंग बरकरार रखी है। उनका कहना है कि दूरसंचार में नई पेशकश, खुदरा हिस्सेदारी की संभावित बिक्री (जिसमें बड़े निवेशकों की काफी दिलचस्पी नजर आ रही है), पवन ऊर्जा उपकरण विनिर्माण में प्रवेश और एआई वाली कंप्यूटिंग क्षमता की योजना काफी अहम है।

इस कैलेंडर वर्ष में यह शेयर करीब 3 फीसदी चढ़ा है जबकि बीएसई सेंसेक्स में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ातरा हुई है। विश्लपको को कहना है। क आरआईएल के शेयरों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तभी नजर आएगी जब खुदरा व दूरसंचार कारोबार को सूचीबद्ध कराने की समयसारणी सामने आएगी। आरआईएल के शेयरों पर विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों की राय :

जेफरीज

रेटिंग : खरीदें। लक्ष्य : 2,950 रुपये

बोकरेज को उम्मीद है कि आरआईएल के ब्राकरण का उम्माद है। के आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान जियो व खुदरा कारीबार को अलग कर उसे सूचीबद्ध करा सकते हैं। वित्त वर्ष 25 के दौरान रिलायंस जियो में पूंजीगत खर्च कम रह सकता है क्योंकि 5जी नेटवर्क पर खर्च मोटे तौर पर हो चुका है। यह आय अनुमान को अपरिवर्तित रख रहा है क्योंकि अल्पावधि के लक्ष्यों को लेकर सीमित सूचनाएं हैं और किसी अहम पूंजीगत खर्च की घोषणा नहीं हुई है।

नोमूरा रेटिंग : खरीदें । लक्ष्य: 2,925 रुपये

ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि आरआईएल अपनी नई वायरलेस ब्रॉडबैंड की पेशकश जियो एयरफाइबर की कीमत प्रतिस्पर्धी रखेगी। यह भारती एयरटेल की दिल्ली व मुंबई की हालिया प्रायोगिक फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस से प्रतिस्पर्धा



कर सकती है. जिसमें मासिक टैरिफ 799 रुपये है और न्यूनतम छह महीने की योजना 2,500 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ मिलेगी। एंटरपाइज ऑफरिंग स्पेस में आरआईएल की

आक्रामकता से उद्योग के लाभ पर असर पड़ सकता है। जियो फाइनैंशियल बीमा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है। चुंकि अन्य कारोबारों के बारे में बहुत ज्यादा सूचना नहीं दी गई, ऐसे में जियो फाइनेशियल की क्रियान्वयन क्षमता समय के साथ ही स्पष्ट होगी।

कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज रेटिंग : और खरीदें। लक्ष्य: 2,600 रुपये

आरआईएल के अहम कारोबारों का परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र को उच्च रिफाइनिंग मार्जिन, पेट्रोकेमिकल स्प्रेड में सुधार और केजी बेसिन में बढ़ते उत्पादन से लाभ मिलेगा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आ्रजियों को ामलागा आकरण का उम्माद है कि आराजवा का 2024 के आम चुनाव के बाद टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी से बाजार हिस्सेदारों में बढ़त मिलती रहेगी।खुदरा की रफ्तार तेज रहेगी, जिसे नए खुले स्टोर, न्यू कॉमर्स के शेयर में इजाफा और एफएमसीजी में उत्तरने से फायदा मिलेगा।

रेटिंग : खरीदें। लक्ष्य: 2 900 रुपये

राटन : खरादा लक्ष्य: 2,7900 रुपय शुद्ध कर्ज को लेकर उसे अनुमान है कि आरआईएल का शुद्ध कर्ज वित्त वर्ष 24 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगा। तब शुद्ध कर्ज में गिरावट आनी शुरू होगी क्योंकि पूंजीगत खर्च घटकर १ ३-१ ४ लाख करोड़ रुप्रेय सालाना रह जाएगा, जो वित्त वर्ष 23 में 2.3 लाख करोड़ रुपये रहा और इसकी फंडिंग पूरी तरह से आंतरिक नकदी सृजन से होगी। ब्रोकरेज को आरआईएल की प्रति शेयर आय अगले 3 से 5 साल में सालाना 14-15 फीसदी चक्रवृद्धि की

रफ्तार से बढ़ने की संभावना दिख रही है। उसे उम्मीद है कि आरजियों का औसत राजस्व प्रति ग्राहक वित्त वर्ष 23-28 में सालाना 10 फीसदी चकवदि की रफ्तार से बढ़ेगा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैशियल रेटिंग : खरीदें। लक्ष्य: 2,920 रुपये

ब्रोकरेज को वित्त वर्ष 23-25 में एकीकृत राजस्व व एबिटा में सालाना 12 फीसदी चक्रवृद्धि की रफ्तार नजर आ रहा है। खुदरा दूरसंचार और न्यू एनर्जी अगले 2-3 साल में बढ़त के नए इंजन होंगे। ब्रोकरेज एकल रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल बिजनेस की वैल्यू 904 रुपये प्रति शेयर, आरजियो 750 रुपये प्रति शेयर और रिलायंस रिटेल को 1,485 रुपये प्रति शेयर आंक रहा है और इसके लिए हालिया हिस्सेदारी बिक्री पर नजर डाली है। न्यू एनर्जी बिजनेस की वैल्यू बुक वैल्यू आधार पर 16 रुपये प्रति शेयर आंकी है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रेटिंग : और खरीदें। लक्ष्य: 2,650 रुपये

ब्रोकरेज आरआईएल की महत्वाकांक्षा को बहुत ऊंचा मान रहा है क्योंकि इसकी पूंजी दक्षता सुस्त है। नियोजित पूंजी में तीव्र बढ़ोतरी (जो आय की रफ्तार से काफी आगे बना हुआ है), नियोजित पूंजी पर रिटर्न पिछले चार-पांच साल से नरम बना हुआ है। इस अवधि में परिचालन आय की रफ्तार सालाना 18 फीसदी की चक्रवृद्धि के हिसाब से रहने के बावजूद् मुक्त नकदी प्रवाह सुस्त रहा है। ब्रोकरेज की वित्त वर्ष 23-वित्त वर्ष 25 में आय में सालाना 18.6 फीसदी चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन ब्रोकरेज सुस्त रिटर्न अनुगत व सीमित मुक्त नकदी प्रवाह को लेकर चिंतित है।

> जियो फाइनैंशियल में 5 फीसदी की

221.7 रुपये पर बंद हुआ। इस खबर के बीच यह बढ़ोतरी देखने

को मिली कि प्रवर्तक समह की

इकाई ने खुले बाजार से 5 करोड़ शेयर 210 रुपये के भाव पर खरीदे।

एनएसई व बीएसई पर कुल 2,639

करोड़ रुपये के शेयरों का कारोबार हुआ। अगर ज़ियो फाइनैशियल क् शेयर बधवार के कारोबार में ऊपरी

या निचले सर्किट को नहीं छूता है तो इस शेयर को निफ्टी व सेंसेक्स से

बाहर निकाल दिया जाएगा। इस

कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग किया गया है और पिछले

हफ्ते इसके कारोबार की शरुआत

के पहले तीन कारोबारी सत्र में यह 5 फीसदी के लोअर सर्किट की

चपेट में आ गया क्योंकि एक्सचेंज

उछाल दर्ज जियो फाइनैशियल सर्विसेज का शेयर करीब 5 फीसदी उछलकर

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी के नए कदम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंजों (एसएसई) को लोकप्रिय बनाने के लिए निर्गम आकार आधा करने और न्यूनतम आवेदन राशि भी 2 लाख रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। एनएसई और बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंजों ने संयुक्त रूप से 30 से ज्यादा सामाजिक उद्यमों को अपने साथ जोड़ा है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के जरिये अब तक कोई

सेबी ने निर्गम आकार में कमी और न्यूनतम आवेदन राशि घटाने की योजना बनाई है

कोष उगाही नहीं हुई है। सेबी के नए प्रस्तावों का मकसद सोशल स्टॉक एक्सचेंज का आकर्षण बढ़ाना है।

एक्सचेंजों और कारोबारियों के साथ चर्चाओं

के बाद, बाजार नियामक ने एसएसई पर सूचीबद्धता और जीरो कूपन जीरो प्रिंसीपल (जेडसीजेडपी) बॉन्डों के जिरये कोष उगाही के

लिए कई मानकों को नरम बनाया है। सेबी ने गैर-लाभकारी संगठनों के लिए न्यूनतम निर्गम आकार 1 करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि उद्यमों को शुरुआत में एसएसई पर 1 करोड़ रुपये जटाने में समस्या हो सकती है।



FDC Limited

BUYBACK OF UPTO 31,00,000 (HIRTY ONE LAWIT PULLY PADUE BOUTT'S HARRES, OF FACE VALUE OF RE. 17- (RUPEE ONE) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1,87% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2023 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 23, 2023. ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 500 (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) ("BUYBACK FIVE") SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 155,00,00,000 (RUPEES ONE HUNDRED AND FIFTY FIVE CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE")

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

a) the public announcement in connection with the Buyback published on August 11, 2023 in the following newspapers: () Business Star (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) Loksatta (Marathi - Aurangabad Edition) ("Public Announcement

b) the letter of offer dated August 28, 2023 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

ed terms used but not defined in this Offer Opening Advertisment shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date Le. Friday, August 25, 2023 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ide are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

The Letter of Offer or the Form of Acceptance-com-Acknowledgement from the website of the Company (<a href="https://www.school.org/nc/mww.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below:

Ratio of Buyback * Category of Shareholders erved category for Small Shareholders 12 Equity Shares for every 131 Equity Shares held on the Record Date General category for all other Eligible Shareholders 1 Equity Share for every 61 Equity Shares held on the Record Date

* The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicates buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback is approximate and providing indicates Buyback entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 14.8935%.

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 28 of the Letter of Offer.

uction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to parti in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back

(a) In case the Shares are held in Dematerialised Form Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 2024 on page 35 of the Letter of Other Letter of Clause.

(b) In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buybaci through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 34 of the Lette of Offer.

of Offer.

(c) In case of non neceipt of the Letter of Offer. The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 37 of the Letter of Offer.

An Eligible Shareholder holding share in physical form may also participate in the Buyback by downloading the Tender Form from the website of the Company I.e., www.lichindm.com.or to website of the Registrar I.e., www.linhindms.co.bin or by providing their application in writing on plain paper to the Registrar, signed by Eligible Shareholder or all Eligible Shareholders (in case Equity Shares are in joint name) stating name, address, follo number, number of Equity Shares bendered the Buyback and the distinctive numbers thereof, bank account details together with the original share certificate(e), copy of Eligible Shareholders PAN card(s) and executed Form SH4-1 favour of the Company. The Insurater Form (SH4-4) can be downloaded from the website of the Mayeriane.ob. Eligible Shareholders was ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents (as mentioned in paragraph 20.25 of Letter of Offer), reach the Registrar on or before the Buyback Shareholders provided in the plain paper application.

(by 6.00 p.m.) If the signature(g) of the Eligible Shareholders must paper application of offers from the same order (although attested), the Company / Registrar shall have a right to reject such applications.

Shareholders have to ensure that their bid is entere aliable by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Board Meeting approving the Buyback	August 09, 2023	Wednesday
Date of publication of the Public Announcement for the Buyback	August 11, 2023	Friday
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	August 25, 2023	Friday
Last date for dispatch of Letter of Offer	August 29, 2023	Tuesday
Date of Opening of the Buyback	August 31, 2023	Thursday
Date of Closing of the Buyback	September 06, 2023	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback *	September 08, 2023	Friday
Last date of verification of Shares tendered by the Registrar to the Buyback	September 08, 2023	Friday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchanges	September 13, 2023	Wednesday
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar / payment of consideration to shareholders / return of unaccepted demat shares by Stock Exchange to Eligible Shareholders	September 13, 2023	Wednesday
Last date of extinguishment of Equity Shares	September 25, 2023	Monday
Clicible Chambeldon are assigned to a back their fame(s) with their businesses building the particular a spill by	al abo collegenessbares	and a search address.

which their broker for bidding. After entering a valid bid, the seller member should by registered post / counter to the Registrar to the Buyback the Tender Forms along with the requisite documents, superscribing the envel Limited - Buyback 2023*, or hand deliver the same to the Registrar to the Buyback at the address mentioned on the cover page or of the Letter of Offer.

Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") is relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein

MANAGER TO THE BUYBACK

REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE

LINKIntime

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Murnbai - 400 083, Maharashtra, Ind

Tel. No.: +91 810 811 4949 Fax: +91 22 4918 6060 Email id.: fdc.buyback2023@linkintime.co.in

SUND@E

Sundae Capital Advisora Privata Limitad
404, 4th floor, Valbhav Chambars
Opp, Income Tax Office, Bendra Kuria Complex
Bandra (East), Mumbal - 400 051, Maharashtra, India
Tal. No. 4-19 66 9785 9191
Email: fdc.buyback@und

Website: www.sundaecapital.com SEBI Regn. No.: INM000012494 Validity Period: Permanent Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma

Website: www.linkintime.co.in SEBI Regn. No.: INR000004058 Validity Period: Permanent Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer

For and on behalf of the Board of Directors of

Managing Direc (DIN: 00043344)

Place: Mumbai Date: August 29, 2023

₂₇-ohan Anand Chandavarkar

Ashok Anand Chandavarka ecutive Direc N: 00042719)

nl Katre v Secretary & Compliance Office

10 तिमाहियों में सबसे कम

'जून तिमाही में आईटी सेवा राजस्व

नई दिल्ली, 29 अगस्त

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान जताया है कि भारतीय आईटी सेवा उद्योग की राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2024 में नरम पड़कर 3 वित्त वर्ष 2024 में नरम पड़कर 3-5 प्रतिशत रहेगी, क्योंकि लगातार वृहद आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिका तथा यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में कमजोर मांग की वजह से राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है।

एजेंसी के अनसार भारतीय आईटी सेवा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही और वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के बीच वृद्धि में कमजोरी दर्ज की। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में, इक्रा के नमूने वाली कंपनियों ने अमेरिकी डॉलर संदर्भ में एक साल पहले के मुकाबले 3.8 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो पिछली 10 तिमाहियों में सबसे कम है। अमेरिका में राजस्व वृद्धि की रफ्तार यूरोप की तुलना में ज्यादा कमजोर

उद्योग संगठन नैसकॉम के अनुमान के अनुसार राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में करीब 3 प्रतिशत कम रह सकती है। परिचालन मुनाफा मार्जिन भी कम परिचालन दक्षता की वजह से वित्त वर्ष २०२४ में ७०-१०० आधार अंक तक घटकर 20-21 प्रतिशत

अंक तपः रह सकता है। ेगेंगें के संदर्भ बीएफएसआई और संचार में अन्य



डक्रा का आकलन

■ रेटिंग एजेंसी ने 2024 में भारतीय आईटी सेवा उद्योग की राजस्व वृद्धि कमजोर रहने का अनुमान जताया है

■ वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में अमेरिका में राजस्व वृद्धि की रफ्तार यूरोप की तुलना में ज्यादा कमजोर रही है

 इक्रा को वृहद आर्थिक समस्याएं चालू वित्त वर्ष के अंत तक दूर होने के बाद राजस्व विद्ध की रफ्तार में सधार आने की उम्मीद है

सेगमेंटों के मुकाबले ज्यादा कमजोरी आई है। मौजूदा वृहद आ थिंक चिंताओं के बीच र्थिक चिंताओं के बीच बीएफएसआई पर मॉर्गेज, निवेश पंजी बाजार और बीमा सेगमेंटों में नरमी की वजह से प्रभाव

वहीं कम्यनिकेशन वटिकल पर दूरसंचार कंपनियों की कमजोर राजस्व वृद्धि की वजह से दबाव पड़ा, क्योंकि 5जी में ग्राहकों द्वारा किए गए निवेश से उसके तकनीकी खर्च में सुधार लाने में ज्यादा मदद नहीं मिली।

इक्रा को वृहद आर्थिक समस्याएं चालू वित्त वर्ष के अंत तक दूर होने के बाद राजस्व वृद्धि की रफ्तार में सुधार आने की उम्मीद है। सेक्टर हेड दीपक जोतवानी ने

उद्योग के प्रदर्शन की अल्पावधि संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त

इक्रा के सहायक उपाध्यक्ष एवं

ट्रेडेड फंडों की तरफ से भारी बिकवाली का दबाव था। बीएस पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का शेयर पहले दिन चढ़ा : पैकेजिंग कंपनी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का शेयर अपने कारोबार के पहले दिन मंगलवार को निर्गम मल्य पर लगभग सात फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी शेयर 166 रुपये के निर्गम मल्य के मुकाबले 11.44 फीसदी बढ़कर 185 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।बाद के कारोबार में यह 13.25 फीसदी चढ़कर 188 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद मुनाफावसूली हुई और शेयर 5.87 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। भाषा

करते हुए कहा 'ड़का को कई प्रमुख बाजारों में अनिश्चितता बरकरार रहने की वजह से वित्त वर्ष 2024 में (अपने नमूने में शामिल कंपनियों के लिए) अमेरिकी डॉलर संदर्भ में 3-5 प्रतिशत की कुमजोर राजस्व वृद्धि का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023 में दर्ज की गई 9.2 प्रतिशत् की सालाना वृद्धि के मुकाबले काफी कम है। साथ ही इक्रा को वृद्धि में संभावित नरमी की वजह से अल्पाविध में आईटी सेवा कंपनियों द्वारा नियुक्तियों में कमी किए जाने

APPOINTMENTS



की संभावना है।

राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

लिएडार | पूर्वप्र कम नवंदी ट्रस्टी कंसी लिमिटेड (एस्पीकीटीची), विशीव सेवारं विभाग, विश संवारत पारत सरकार के संजूरी स्वामित्व वाली एक कसी है जिसे बहु क्रम नावंटी निविद्यों के कि एक सामान्य हरती कंसी के क्या में कार्य करने के दिए कंसी व्यक्तियम, 1956 के अंतर्गर हर मार्च, 2014 के निमित्त विद्या गया। एक्सिकीटीकी निम्मिलिय पार्ट बंदु (लंबी असी के लिए अनुसंब आवार पर) उपयुक्त प्रेकेवों की फर्ती करना चाडता है.

1. प्रबंधक – परिवासन 3. सहायक प्रवंधक - आईटी / विधि

2. प्रबंधक - जोखिम 4. सहायक प्रबंधक - कंपनी सेकेटरी

अधिक जानशरी के लिए कृप्या वेससाइट www.nogic.la पर वारी। अगर कोई पशिष्ठ / वृद्धिनक को तो जसे केवल स्पत्तिवीदीची की केससाइट पर ही प्रकाशित किया जाएता ज्यानिकार अधिन अकेवल जमा करने से पान्ने इसे अवस्य देख लें। आवेदन जमा करने की अंतिन शिक्ष 20 विस्तंत्र, 2023 है।

कॉइनस्विच ने की छंटनी

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज यूनिकॉर्न कॉइनस्विच ने इस महीने के शुरू में अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम से 44 कर्मचारियों की छंटनी की। कंपनी ने इसके लिए ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पूछताछ में आई गिरावट को जिम्मेदार बताया है। इससे पहले क्रिप्टो यूनिकॉर्न

कॉइनडीसीएक्स ने अपने 12 प्रतिशत (करीब 80) कर्मियों की छंटनी की। कंपनी ने चुनौतीपूर्ण वृहद आर्थिक हालात और इस क्षेत्र में नियामकीय अनिश्चितता के बीच यह छंटनी की है।

कॉइनस्विच के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, कंपनी के 519 कर्मचारी हैं। इसका मतलब है कि कॉइनस्विच के करीब 8 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। कॉइनस्विच के एक अधिकारी ने बताया, हम प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए लगातार अपने व्यवसाय का आकलन कर रहे हैं और अपने ग्राहकों के लिए नवाचार, मूल्यों और सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। अपनी प्रतिस्पर्धी कॉइनडीसीएक्स के साथ कॉइनस्विच भारत में सिर्फ दो क्रिप्टोकरेंसी यूनिकॉर्न हैं। *बीएस*

WWW.LOKSATTA.COM

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त १६ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबरोबरच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीमध्ये जाहीर सभा घेण्याचे नियोजन केले जात आहे.

अमित शहांच्या उपस्थितीत मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवाची सांगता स्मार्ट सिटी कार्यालयात मंत्रिमंडळाची बैठक ; सभेचेही आयोजन

झाला नसला, तरी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात मंत्रिमंडळाची बैठक आणि अयोध्यानगरी भागात सभेचे ठिकाण असावे असे प्राथमिक नियोजन पूर्ण

मुनगंटीवार ३१ ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे येणार आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त प्रशासकीय इमारतीच्या भमिपजनासह

रखडलेल्या १२ हजार पंतप्रधान घरकुल योजनेचे उद्घाटन केले जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी

कालावधीमध्ये शहरात विविध कार्यक्रमांची रेलचेल असणार असून, राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून काही कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. याशिवाय १६ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी विविध शासकीय कार्यालयांकड्न विभागाच्या

इण्डियन ओवरसीज बैक

Indian Overseas Bank

मालमतेसाठी बोली रु.१०,०००/- च्या पटीने वाढतील.

अ. किर्जदार/ गहाणदार

यांचे नाव

श्रीमती शारदा धनराज

म्हणून लक्षात घेतले जाऊ शकते.

लेंकसत्ता

ADMISSION OPEN

B.PHARMACY

CONT.: PRERNA INSTITUTE

OF PHARMACY, PARBHANI.

9970792550

8087206109

.PHARMACY

P.C.I APPROVED

दिनोंक : 29/08/2023

स्थळ : जळगाव

विकासाचे प्रस्ताव तयार करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. १७ सप्टेंबर रोजी शासकीय ध्वजारोहणापूर्वी गृहमंत्री मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सांगता समारोह आयोजित करण्याचे ठरविण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या घरकुल योजनेचे भूमिपूजनही या वेळी केले जाणार आहे.

ं चल आणि अचल मालमत्तेच्या विक्रीसाठी विक्री सूचना 🆊

(नियम ६(२) आणणि ८(६) चे सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स)

याद्वारे आम जनतेला आणि विशेष करून कर्जदार आणि जमानतदार यांना सूचना देण्यात येत आहे कि खालील उल्लेखित मालमता बँकेकडे गहाण / प्रभाराधीन आहे या मालमतेचा **सांकेतिक ताबा** इण्डियन ओवरसीज बैंकेच्या अधिकृत अधिकारी यांनी घेतला आहे आणि 'जसे आहे तसे आहे', "जे आहे ते आहे" आणि "जे काही आहे' या आधारावर पुढील व्याजाची वसुली करण्याकरिता कर्जदार/ जमानतदाराकडून बैकेद्वारे दिनांक 22.09.2023 (शुक्रवार) दुपारी 12:00 ते दुपारी 2:00 पर्यंत www.iob.in आणि

ttps://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi या ऑक्शन पोर्टलद्वारे विक्री केल्या जाईन. राखीव किंमत आणि ईउमडी खाली दिले आहेत सर्व

संपत्तीचे विवरण

जळगाव शाखा (शाखा कोड: ०७६३)

विक्रीच्या नियम व शर्ती करिता कृपया सुरक्षित लेनदार यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या लिंक www.job.in आणि https://www.mstcecommerce.com,

auctionhome/ibapi चे अनुसरणे करावे." वरील दिलेल्या तारखेला ई-लिलाव करण्याबाबत कर्जदार / जमानतदार सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल, २००२ च्या नियम ६ (२) आणि ८(६)/९ (१) अंतर्गत नोटीस

(इंग्रजीतील मुळ मजकूर ग्राह्य धरण्यात येईल)

भविष्यविषयक

ॲस्ट्रॉलॉजी: गोल्ड

मेडलिस्ट, जन्मकंडली

हस्तरेषा - चेहरा, फोटोवरून

आपल्या प्रश्नांवर सविस्तर

भविष्य तसेच वास्तुशास्त्राचे

महत्त्व, वास्तुशांतीचे साधे-

सोपे उपाय ५० पानांवर लिहन

मिळतील, पाहिजे असल्यास

हिंदी/ इंग्रजीमधन लिखाण

स्वीकारतो.) नवग्रहांचे रत्ने,

भाग्योदय यंत्रे, रुद्राक्ष इतर

करून दिले जातील. मुख्य

सदानंद जोशी, कु. यशश्री

सधाकर जोशी. सोमवार ते

संध्याकाळी ६. योगी निवास

(पश्चिम), मुंबई-४०००६४.

९८२०६१२५७८. (वरील

शनिवार सकाळी १० ते

बंगला, पहिला मजला,

9620443208/

किसन क्रॉस रोड, नवीन

कार्यालय श्री. सुधाकर

शुभवस्त सचवितो व अनुष्ठान

मिळेल. (प्रश्नांची फी

एकदाच सुरुवातीला

बनविणे, जुळविणे,

जन्मकंडलीवरून तसेच

श्री धनराज माधव सुतार संपूर्ण भाग आणि तुरुडा असलेले संपत्ती स्थित प्लॉट नं. ५६ (भाग), गट नं. १९०/१ + १९१, ब्लॉक नं. ए, कॉल्डे 🛭 रु. १४,४३,९१३.०० 🖡

बी. पश्चिमेस - Adi. प्लॉट नं. 55. उत्तरेस - त्याच प्लॉट मधील ब्लॉक नं. सी. देंक्षिणेस - 9.00 मी. रूंद रोड.

श्रीमती जिजाबाई साहेबराव तांदळे आणि श्री.बापू साहेबराव तांदळे आणि श्री.बापू साहेबराव तांदळे यांच्या जाते. संपीतीची वर्तुसिमा खालीलप्रमाणे : पुर्वेस - रोड, पश्चिमेस - श्री. मधुकर

पाटिल यांचे घर, उत्तरेस-रोड, दक्षिणेस-श्री, कौर्तीक तांदळे वांचे घर

हिल्स एरीया, सावखेंडे,काशिनाथ पालोद पब्लिक शाकेच्या मागे, तालुका आणि जिल्हा जळगाव क्षेत्रफळ प्लिथ

एरीया 38.29 चौ.मी. एकुण जागेवा विस्तार 53.10 चौ.मी. उभी असलेले श्री. धनराज माधव सुतार आणि श्रीमती शारदा धनराज सुतार यांच्या नावे. संपीतीची चतुसिमा स्वालीलप्रमाणे : पुर्वेस् - त्याच प्लॉट मधील ब्लॉक नं.

एनफोर्समेंट) रुल्स २००२ (नियम) मधील नियम ८ (६) अंतर्गत अचल मालमता विक्रीसाठी ई-लिलाव विक्री नोटीस

उपोषणकर्त्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू

लोकसत्ता वार्ताहर

क्षेत्रिय कार्यालय नागपूर

C/o 4सी-निर्मला अपार्टमेंट, जीएफ, तिलक नगर नवाब लेआउट, अमरावती रोड, नागपुर - 10

फोन : 0712-2533343, ई-मेल : iob2537@iob.in

नांदेड: थकीत वेतनासह अन्य मागण्यांसाठी मागील ८६ दिवसांपासन

थकबाकी रक्कम | आरक्षित | ईएमडी

ਦ. 13.41 ਦ. 1.35

ਲ. 5.42 ਨ. 0.55

लाख

लाख

लाख

अधिकृत अधिकारी

इण्डियने ओवरसीज बँक

(रु. लाख मध्ये) | रक्कम

वनपरिक्षेत्रातील कामगारांचे बेमुदत उपोषण सुरू होते. उपोषणकर्त्या एका ६५ वर्षीय महिलेचा शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली असून उपोषणकर्त्यांमध्ये वनविभागाबद्दल तीव्र संतापाची लाट पसरली असून पोलिसांनी वन विभागाच्या कार्यालयासमोरील सुरक्षा वाढवण्याचे सोमवारी पहावयास

कार्यालयासमोर किनवट, माहर, भोकर

याबाबत उपवनसंरक्षक 🚺 केशव वाबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की. त्या महिलेचे वय ५७ वर्ष असन वनविभागात कायम करावे. अशी त्यांची मागणी होती. थकीत वेतनाची मागणी मान्य झाली असून त्यांच्या खात्यावर वेतन जमाही झाले आहे. वनविभागात कायम करण्याची बाब आमच्या अधिकारातील नाही. त्या महिलेच्या परिवाराला माणुसकीच्या नात्याने काही मदत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे वावळे यांनी

सांगितले.

मिळाले. किनवट. माहर वनपरिक्षेत्रातील 83 कामगारांचे एप्रिल २०२० पासनचे थकीत वेतन देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी मागील ५ चिखलवाडी जूनपासून परिसरातील वनविभागाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सरू आहे. रविवारी

उपोषणाचा ८५ वा दिवस

लोणी येथील वनमजूर

कौशल्याबाई प्रल्हाद परचाके

(वय ५७) या उपोषणकर्त्या

महिलेची प्रकृती खालावली

होती. त्यामुळे त्यांना विष्णुपुरी

येथील शासकीय रुग्णालयात

उपचारासाठी दाखल करण्यात

आले होते. कौशल्याबाई

परचाके या महिलेची प्रकृती

चिंताजनक बनली होती, त्या

कोमात असल्याचे डॉक्टरांनी

सांगितले होते. सोमवारी २८

ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू

झाला. ही घटना समजताच

वन विभागातील अधिकारी,

कर्मचारी यांनी विष्णुपुरी येथील

रुग्णालयात धाव घेतली.

यावेळी मृत महिलेच्या

सहकाऱ्यांनी वनविभागाच्या

कारभाराबद्दल तीव्र संताप

व्यक्त केला. या महिलेचे

नातेवाईक उपोषणस्थळी

नातेवाइकांनी अक्षरशः हंबरडा

अधिकारीऱ्यांवर कारवाई

करण्याची मागणी केली. मृत

वनमजूर महिलेचा मृतदेह

ताब्यात घेण्यास नकार

मागणी

सुचना

दाखल

फोडत

दिल्यानंतर

वनविभागाच्या

कार्यालयासमोर

वाढवली होती.

सही/-

अधिकृत अधिकारी, ॲक्सिस बँक लि.

झाले असून


संबंधित

पोलिसांनी

सुरक्षा

किनवट तालुक्यातील

सेंट्रल बसस्टॅण्डसमोर,हॉटेल मिझाजवळ, औरंगायाव,फोन नं.(0240)2350042 9021111549 www.drshaikhah.in 0090331296-24-4



दर रविवारी 'लोकसत्ता'तून

पत्त्याशिवाय आमची कठेही शाखा अथवा प्रतिनिधी नाहीत.) 0070856199-महत्त्वपूर्ण निवेदन वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचा मजकुर जाहिरातीतील जाहिरातदार

वैद्यकीय रविवास

मापन्त

तपासणा नसकमजोरी,असमाधानी,शुक्रजंत कमी वांझपणा असल्यास भेटा ्रडॉ.ए.एच.शेरव नवजीवन आयुर्वेदिक डिन्पेन्सरी



(ॲडव्हर्टाइजिंग कॉपी) स्वीकारण्यापूर्वी काळजी घेतली जात असली तरी त्याच्या आशयाची (कन्टेन्ट) पडताळणी करणे शक्य होत नाही. तरी, आपल्या वृत्तपत्रांमध्ये अथवा प्रकाशनांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या कंपन्या, सहयोगी संस्था अथवा व्यक्तींबरोबर व्यवहार केल्यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचे नुकसान वा हानी झाल्यास त्यासाठी अथवा संबंधित जाहिरातीतील आशयासाठी द इंडियन एक्स्प्रेस (प्रा.) लिमिटेडला जबाबदार ठरविता येणार नाही. त्यामुळे वाचकांना आम्ही असा सल्ला देतो की, जाहिरातदारांना कोणतीही रक्कम प्रेषित करण्यापूर्वी अथवा त्यांच्याबरोबर कोणत्याही स्वरूपाचे संमतिपत्र कार्यसिद्ध करण्यापूर्वी अथवा एखाद्या जाहिरातीवर आधारित कोणतीही कृती करण्यापूर्वी त्यांनी आवश्यक ती चौकशी करण्याची खबरदारी घ्यावी.

दोस्ती ट्रर दिल्ली- आग्रा-गोकुळ- कुरूक्षेत्र, संदरबन, गंगासागर-जगन्नाथप्री, त्रिस्थळी-

dofenac Diethylamine+Linseed Oil + Methyl Salicylate+ Menthol Fast Relief in localized Pain नैमिष्यआराण्यसह, नर्मदा परिक्रमा, बदामी- हंपी, चारधाम, नेपाळ, केरळ, 0070850471-28-

व्यवसाय

DIVINE

SOFNAC PLUS GEL

विवाहविषयक

मरेज ब्युरो

कुळकर्णींची 'पवित्रविवाह'

मॅट्रीमोनी. डॉक्टर्स, CA,

नोकरी, बँकर्स, NRI,

इंजिनीअर्स, MBA, सरकारी

उद्योजक, सुस्थापित, सर्व

जातींच्या वध्वरांची भरप्र

स्थळे. 9892625606/

राजस्थान- आसाम. 9594880123/ 8828224121.

Lokprabhat*9422734062

यात्रा विशेष

यात्रासहल

0070839968-12

'हिमसेत् दर्स''-9920173723/ 7021799044 (श्रावण महिन्यानिमित्त दूर्सवर ५% सवलत) * कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त - लोणार (शेगांवसह)-

२६/१०/२०२३. नर्मदा परिक्रमा- ७ डिसेंबर/ जानेवारी/ फेब्रुवारी.

0070828840-8

visit us at

8450914835.

WWW.LOKSATTA.COM

🙏 ॲक्सिस बँक लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : त्रिशूल, ३रा मजला, समर्थेश्वर मंदिरासमोर, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद - ३८०००६. शाखा कार्यालय: ॲक्सिस बॅंक लि., १ ला मजला, माझदा टॉवर्स, जिल्हा परिषदे समोर, जीपीओ रोड, त्र्यंबक नाका, नाशिक-४२२००१.

सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल ॲसेटस ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट,२००२ (सरफेसी ॲक्ट)च्या सेक्शन १३(२) अंतर्गत सिक्युरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल २००२ चा रुल ३(१) सह

ॲक्सिस बँक लि., मध्ये असलेली खाली नमूद करण्यात आलेली खाती अनुत्पादक (एनपीए) ठरविण्यात आलेली आहेत, त्यावरून बँकेने सरफेसी ॲक्टच्या सेक्शन १३(२) नुसार खाली नमूद तारखांना सूचना जारी केल्या आहेत. खाली नमूद करण्यात आलेले कर्जदार/ जामीनदार यांच्या अलिकडे माहित असलेल्या पत्त्यावर सदर नोटीसा बजावण्यात असफल ठरल्याने सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी सदर नोटीस प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

रक्कम, करारात नमुद करण्यात आलेल्या दराने रक्कम, परत करण्याच्या तारखेपर्यंतचे कर्ज/आणि अन्य करार आणि त्यानुसार संबंधित व्यक्तीनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार भविष्यातील व्याजासह **ॲक्सिस बँक लि.**, यांना परत करावी. सदर करार आणि कागदपत्रे यांनुसार कर्जदारांची बांधिलकी म्हणून खाली दिल्याप्रमाणे त्यांच्या नावापुढे नमूद करण्यात आलेल्या मालमत्ता **ॲक्सिस बँक लि.** यांच्याकडे गहाणतारण आहेत. जर संबंधित कर्जदार / जामीनदार **ऑक्सिस बँक लि.**, ला सदर रक्कम परत करण्यास असफल ठरले तर, खाली नमूद केलेल्या तारण मालमत्तांच्या संदर्भात सदर कायद्याच्या सेक्शन १३(४)

आणि लागू होणारे रुल्स यांसह संबंधित कर्जदार/ जामीनदार यांच्या खर्च आणि परिणामांसह जोखमीवर कारवाई करण्याचा **ऑक्सिस बँक लि.** यांना अधिकार आहे. ॲक्टच्या सेक्शन १३ व सब

खाली नमूद करण्यात आलेले कर्जदार/जामीनदार यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी ह्या नोटीसीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत खाली नमूद करण्यात आलेल्या तारखेस येणे असलेली

सेक्शन ९३ अंतर्गत तरतृदींनुसार आपण सर्वजण सदर नोटीसीला अनुसरून खाली नमृद केलेल्या बँकेकडे स्रक्षित तारण म्हणून ठेवण्यात आलेल्या मालमत्ता बँकेच्या लेखी पूर्व परवानगी शिवाय कोणत्याही प्रकारे विक्री, भाडेपट्टा किंवा अन्य मार्गाने हस्तांतरीत करू शकत नाही. वर नमूद ॲक्टमधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार/गहाणदार/जामीनदार यांना सदर मालमत्ता, कोणत्याही प्रकारे विक्री, भाडेमद्रा किंवा अन्य मार्गाने हस्तांतरीत करण्यास

प्रतिबंध करण्यात येत आहे. सदर तरतदींचा भंग केल्यास सदर व्यक्ती सरफेसी ॲक्टमधील तरतुर्दीनुसार शिक्षा आणि/किंवा दंडास पात्र ठरेल. आणखी तपशिलासाठी बजावण्यात येऊ न

अ.क.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जामीनदार/गहाणदाराचे नाव आणि पत्ता		थकबाकीची रक्कम रु.	
۹.	 संदिप गोकुळ सोनवणे २. शारदा संदिप सोनवणे दोन्ही रा. प्लॉट नं.१४९, प्रियदर्शनी नगर, नांदगाव बारी, देवपूर, पाण्याच्या टाकीजवळ, धुळे४२४००२. 		क. ९,१६,९७९/- (रूपये नऊ लाख सोळा हजार नऊशे एकोणऐंशी फक्त) दि १५/०६/ २०२३ पर्यंत क्रारानुसार हाणारे सदर रक्षम परत करेपर्यंतचे व्याजासहीत.	
3	कर्जाचा प्रकार : होम लोन	मागणी सचनेची	तारीख : १९/०६/२०२३	एनपिएची तारीख : १०/०४/२०२३

दक्षिण : प्लॉट नं.१४८, उत्तर : प्लॉट नं.२९. 9. शाम विश्वनाथ पाटील, २. अलका विश्वनाथ पाटील दोन्ही रा.प्लॉट नं.२७,मेहरूग रोड, रामेश्वर 🕏 ६,9६,९६०/- (रूपये सहा लाख सोळा हजार नऊशे साठ फक्त) कासमवाडी, जुना मेहरू ण रोड, अष्टभुज माता मंदिराजवळ, प्लॉट नं.०५, जळगांव ४२५००१ | व्याजासहीत.

कॉलनी, मेहरू ण, भोले महादेव मंदिर, जळगांव, महाराष्ट्र,भारत-४२५००१ **तसेच येथे** : दि. १५/०६/२०२३ पर्यंत करारानुसार हाणेारे सदर रक्कम परत करेपर्यंतचे तसेच येथे : स्पेक्ट्रम फॅब्रिकेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ६-२/१, एमआयङिसी एरिया, बीएसएनएल ऑफिस, जळगांव ४२५००३. एनपिएची तारीख: 90/03/२०२३ कर्जाचा प्रकार : होम लोन

पैकी आणि तालुका आणि जिल्ह्याच्या उपजिल्हा नोंदणी अंतर्गत धुळे आणि धुळे महानगरपालिकेच्या हृद्दीत त्याच प्लॉटच्या खालीलप्रमाणे **चर्तुसीमा : पूर्व :** प्लॉट नं.१२४, **पश्चिम :** रस्ता,

मागणी स्वनेची तारीख: १९/०६/२०२३ **गहाण मालमतेचा तपशील :** मालमत्तेचा सर्वसामाईक भाग, दक्षिण बाजूचे क्षेत्रफळ ४६.४५ चौ. मीटर, बांधलेले क्षेत्रफळ ४४.८६ चौ. मीटर., प्लॉट नं.२७, सर्वे नं.२५१/१/१/१/१/४/ २/२, मेहरूण रोड, रामेश्वर कॉलनी, मेहरूण, भोले महादेव मंदिर, जळगांव, महाराष्ट्र, भारत –४२५००९.

3. 9. नाना पंडित चित्ते, २. वर्षा नाना चित्ते दोन्ही रा. ब्लॉक ए, प्लॉट नं.२९, गट नं.१८९/३, मु.पो. रु. १३,१५,००७/- (रुपये तेरा लाख पंघरा हजार सात फक्त) दि. २२/ सावरखेडा बीके, जळगांव-४२५००१ **तसेच येथे** : गट नं.१५४, प्लॉट नं.१५, छत्रपती कॉलनी, **०५/२०२३** रोजीची रक्रम आणि **दि. २३/०५/२०२३** पर्यंत करारानुसार होणारे सदर रक्कम परत करेपर्यंतचे व्याजासहीत. हनुमान मंदिरा जवळ, वाघ नगर, सावरखेडा शिवार, जळगाव -४२५००१.

एनपिएची तारीख : १०/०४/२०२३ कर्जाचा प्रकार : आशा होम लोन मागणी सूचनेची तारीख: ११/०६/२०२३

(टिप : स्वैर भाषांतर तफावत पडल्यास मूळ इग्रजी ग्राह्य)

गहाण मालमतेचा तपशील : मालमतेचा सर्वसामाईक भाग, प्लॉट नं. २९ च्या पूर्व उत्तर कोपऱ्याची बाज (म्हणजे ब्लॉक ए) ५८.५८ चौ.मी. एकण १८२.०० चौ.मी. त्यावरील बांधकामासह ३७.७ ४ चौ.मी. गांव- सावखेडा बी.के., ता. व जि. जळगांव येथे असलेल्या गट नं. १८९/३ मध्ये टाकलेल्या प्लॉट पैकी, सावखेडा बी.के. ग्रामपंचायतीच्या हदीत, आणि महसुली अभिलेखानुसार सीमाबद्ध.

दिनांक : २१/०८/२०२३ स्थळ : देवपूर, धुळे, जळगांव

अद्यापि अमित शहा यांचा दौरा नक्की

करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे

तपशील ठरविण्यासाठी वनमंत्री सुधीर

दि. १५ ते १७ सप्टेंबर या

OFFER OPENING ADVERTISMENT FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

FDC Limited

(CIN: L24239MH1940PLC003176) Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate, Waluj - 431 130, Dist. Aurangabad, Maharashtra

Correspondence Address: C-3 SKYVISTAS, Near Versova Police Station, 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053 Tel: +91 22 2673 9215 Website: www.fdcindia.com, Email: varsharani.katre@fdcindia.com

BUYBACK OF UPTO 31,00,000 (THIRTY ONE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RE. 1/- (RUPEE ONE) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.87% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2023 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 25, 2023. ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 500 (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 155,00,00,000 (RUPEES ONE HUNDRED

a) the public announcement in connection with the Buyback published on August 11, 2023 in the following newspapers: i) Business Standard (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) Loksatta (Marathi - Aurangabad Edition) ("Public Announcement");

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Friday, August 25, 2023 has been completed by August 29, 2023 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the website of the Company (www.fdcindia.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaecapital.com), Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

Category of Shareholders Ratio of Buyback * 12 Equity Shares for every 131 Equity Shares held on the Record Date Reserved category for Small Shareholders General category for all other Eligible Shareholders 1 Equity Share for every 61 Equity Shares held on the Record Date

* The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 9.1603% and General category for all other Eligible Shareholders is 1.6393%.

Instruction to Eligible Shareholders

in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back: (a) In case the Shares are held in Dematerialised Form Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under

the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to

tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 33 of the Letter of Offer. (b) In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback

(c) In case of non receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified

in Clause 20.28 on page 37 of the Letter of Offer. An Eligible Shareholder holding share in physical form may also participate in the Buyback by downloading the Tender Form from the website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in or by providing their application in writing on plain paper to the Registrar, signed by Eligible Shareholder or all Eligible Shareholders (in case Equity Shares are in joint name) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, share certificate number, number of Equity Shares tendered for the Buyback and the distinctive numbers thereof, bank account details together with the original share certificate(s), copy of Eligible Shareholders PAN card(s) and executed Form SH-4 in favour of the Company. The transfer Form (SH-4) can be downloaded from the website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in. Eligible Shareholders must ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents (as mentioned in paragraph 20.25 of Letter of Offer), reach the Registrar on or before the Buyback Closing Date (by 5:00 p.m.). If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Registrar / Company or are not in the same order (although attested), the Company / Registrar shall have a right to reject such

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Board Meeting approving the Buyback	August 09, 2023	Wednesday
Date of publication of the Public Announcement for the Buyback	August 11, 2023	Friday
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	August 25, 2023	Friday
Last date for dispatch of Letter of Offer	August 29, 2023	Tuesday
Date of Opening of the Buyback	August 31, 2023	Thursday
Date of Closing of the Buyback	September 06, 2023	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback *	September 08, 2023	Friday
Last date of verification of Shares tendered by the Registrar to the Buyback	September 08, 2023	Friday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchanges	September 13, 2023	Wednesday
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar / payment of consideration to shareholders / return of unaccepted demat shares by Stock Exchange to Eligible Shareholders	September 13, 2023	Wednesday
Last date of extinguishment of Equity Shares	September 25, 2023	Monday
# Charles Charles and an area and an expect that formers that their harbor for highline. After heretical a collection		وخلفت المحمود الماريد

' Eligible Shareholders are required to submit their form(s) with their broker for bidding. After entering a valid bid, the seller member should send either by registered post / courier to the Registrar to the Buyback the Tender Forms along with the requisite documents, superscribing the envelope as "FDC" Limited - Buyback 2023", or hand deliver the same to the Registrar to the Buyback at the address mentioned on the cover page or in Clause 18

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates

Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

MANAGER TO THE BUYBACK

Sundae Capital Advisors Private Limited

of the Letter of Offer.

404, 4th floor, Vaibhay Chambers Opp. Income Tax Office, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 96 6785 9191 Email: fdc.buyback@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com

LINKIntime

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel. No.: +91 810 811 4949 Fax: +91 22 4918 6060 Email id.: fdc.buyback2023@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Regn. No.: INR000004058

Validity Period: Permanent

Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

For and on behalf of the Board of Directors of FDC Limited

Mohan Anand Chandavarkar Managing Director

Sd/-

SEBI Regn. No.: INM000012494

Validity Period: Permanent

(DIN: 00043344) Place: Mumbai

Date: August 29, 2023

Ashok Anand Chandavarkar **Executive Director** (DIN: 00042719)

Varsharani Katre Company Secretary & Compliance Officer FCS 8948

REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE

Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299

Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

AND FIFTY FIVE CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE")

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

b) the letter of offer dated August 28, 2023 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisment shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below:

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 28 of the Letter of Offer.

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate

through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 34 of the Letter

made available by NSE before the Buyback Closing Date.